

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा “प्रकृति” कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, नाहन, जिला सिरमौर, हि. प्र. में व्याख्यान का आयोजन

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, नाहन, जिला सिरमौर, हि. प्र. के 10+1 एवं 10+2 के विद्यार्थियों के लिए वानिकी तथा पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 31 जनवरी 2019 को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जवाहर नवोदय विद्यालय, नाहन, जिला सिरमौर, हि. प्र. में किया गया जिसमें 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून तथा नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के मध्य हुए एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किया गया। इस समझौता ज्ञापन के तहत परिषद् के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों को वानिकी एवं पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से “प्रकृति : छात्र-वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम” प्रारंभ किया गया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. वनीत जिष्टू, वैज्ञानिक-डी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्थान पश्चिमी हिमालयी राज्यों - हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में वानिकी एवं वानिकी अनुसंधान तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तदोपरांत उन्होंने विद्यार्थियों को पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में चल रही अनुसंधान गतिविधियों के बारे में भी अवगत करवाया।



डॉ. जिष्टू ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से “जैविक विविधता” पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों ने संस्थान के वैज्ञानिक के साथ चर्चा में गहन रुचि तथा उत्साह दिखाया।



कार्यक्रम के अंत में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सत्येन्द्र सिंह तथा उप प्रधानाचार्य श्रीमती कामना गुप्ता ने संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ “प्रकृति” कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा विद्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करने पर धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर संस्थान द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ


